



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 1977/कार्तिक 5, 1899

No. 334] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 1977/KARTIKA 5, 1899

इस भाग की भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

### ORDER

New Delhi, the 27th October 1977

**G.S.R. 653(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies and Cooperation No G.S.R 483(E), dated the 11th July, 1977, and the limits of usage of refined vegetable oils specified in sub-clause (a) of clause (2) of paragraph 2 of the First Schedule to the Vegetable Oil Products (Standard of Quality) Order, 1975, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby prescribes the limits specified in column (3) of the Table below as the limits of usage of the vegetable oil specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table in the manufacture of vegetable oil product (other than products manufactured for non-edible industrial use) in the regions specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table for the period specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table

THE TABLE

Name of Vegetable Oil	Region	Limit of usage (per cent by weight of vegetable Oil product)	Period
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Imported vegetable oils supplied through the State Trading Corporation	All Regions	75	Quarterly basis <sup>a</sup>
2. Cottonseed oil . . . . .	All Regions	10	Quarterly basis
3. Cottonseed oil or imported vegetable oil supplied through the State Trading Corporation <sup>b</sup>	All Regions	5	Quarterly basis
4. Niger seed oil, indigenous soyabean Oil, rice-bran oil, maize (corn) oil, watermelon seed oil, sunflower seed oil, mahua oil	All Regions	5	Quarterly basis <sup>c</sup>
5. Refinedesame oil as liquid oil . . . . .	All Regions	5	

This order shall come into force on the 1st November, 1977

[No 9-VP(1)/76-Vol II]

T. BALAKRISHNAN,

Vegetable Oil Products Controller for India.

### नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 653(अ).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 4 के उपखंड (1) तथा खंड 4ख के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के आदेश संख्या सा० का० नि० 483 (अ) तारीख 11 जुलाई, 1977 और वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 को प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खंड (2) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट परिष्कृत वनस्पति तेलों के उपयोग की सीमाओं को अधिकृत करते हुए, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद निबंधक नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं को, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वनस्पति तेल उत्पाद (जो अखाद्य औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्मित उत्पादों से भिन्न हों) के विनिर्माण में उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेल के उपयोग की सीमाओं के रूप में विहित करते हैं।

## सारणी

वनस्पति तेल का नाम	क्षेत्र	उपयोग की सीमा (वनस्पति तेल के उत्पाद के भार का प्रतिशत)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1 राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किये गये आयातित वनस्पति तेल	सभी क्षेत्र	75	त्रैमासिक आधार पर
2. बिनोले का तेल	सभी क्षेत्र	10	त्रैमासिक आधार पर
3 राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किया गया बिनोले का तेल अथवा आयातित वनस्पति तेल	सभी क्षेत्र	5	त्रैमासिक आधार पर
4. नाइज़र सीड तेल, खेसी-सोयाबीन का तेल, धान की भूसी का तेल, मकई (मक्का) का तेल, तरबूज के बीज का तेल, सूज मुखी का तेल, महुए का तेल	सभी क्षेत्र	5	त्रैमासिक आधार पर
5. तरल तेल के रूप में परिष्कृत तिल का तेल	सभी क्षेत्र	5	

यह आदेश 1 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होगा।

[सं० 9-बी०पी०(1)/76-वालयूम-2]

टी० बालकृष्णन,

भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

